



The Listing Department,
BSE Limited,
Phiroje Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street,
Mumbai – 400001

BSE SCRIP Code: 500112

The Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, 5th Floor, C / 1, 'G' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400051

NSE SCRIP Code: SBIN

CC/S&B/AND/2024-25/90

10.05.2024

Madam / Sir,

Disclosure under Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015: Newspaper publication of financial results for the quarter and year ended 31.03.204.

In continuation to our letter No. CC/S&B/AND/2024-25/74 dated 9th May 2024, regarding outcome of the Board Meeting and financial results for the quarter and year ended 31st March 2024, we submit the copy of newspaper publication of the financials in Business Standard (English), Free Press Journal (English), Business Standard (Hindi) and Navshakti (Marathi) published on 10th May 2024 in terms of Regulation 47 and other applicable provisions of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

This for your information and record.

Yours faithfully,

(Aruna N Dak)
DGM (Compliance & Company Secretary)

Encl: A/a

@ bank.sbi

% +91 22 2274 0841 / 49
% +91 22 2274 1476 / 74 / 31

\$ +91 22 2274 2842

₾ +91 22 2285 5348

♣ +91 22 2274 0527

शेयर एवं बॉन्ड विभाग, कॉर्पोरेट केन्द्र, 14वा माळा, स्टेट बँक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई – ४०००२१, भारत शेयर आणि बॉन्ड विभाग, कारपोरेट केन्द्र, 14वाँ तल, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई – ४०००२१, भारत

Shares & Bonds Dept, Corporate Centre, 14thFloor, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai - 400021, India

APPEALING TO DIVERSE AUDIENCES

Malayalam cinema gets a new home outside Kerala

VANITA KOHLI-KHANDEKAR Pune, 9 May

hidambaram's Manjummel Boys is a gripping watch. The story of a boys' outing gone wrong; released in February this year; grossed (including taxes and trade share) a record ₹169 crore at the box

office. This week it was released on

Disney + Hotstar. Manjummel Boys joins a long list of Malayalam films having a fantastic run at the box office this year. There is the Fahadh Faasil starrer Aavesham about an eccentric gangster, Girish AD's romantic-comedy *Premalu*, Blessy's survival-drama Aadujeevitham -- The Goat Life, and Rahul Sadasivan's taut thriller Bramayugam, with superstar Mammootty in the lead.

In the first four months of 2024. Malayalam cinema has grossed ₹558 crore at the box office, according to data that Ormax Media has shared exclusively with Business Standard.


By the next week, it should comfortably cross the amount it raked in all of 2023 at the box office (₹572 crore).

Its share of the Indian box office has already risen to three times the average for the last many years.


"Malayalam cinema is booming because the films are working in both high-end multiplexes and outside of Kerala," says Sreedhar Pillai, a writer and analyst who has tracked entertainment in the South for over three decades now. "There are no good films in any language, Hindi, Telugu, Tamil," says Mukesh Ratilal Mehta who has produced over 20 South Indian films.

Mainstream Hindi, Tamil, and Telugu releases have been few and far in-between this year.

"The audience in Kerala is rediscovering the joy of going back to the the-



TOP GROSSERS GROSS BOX OFFICE (₹ CR)



He's made the Faasil starrer, Paachuvum Albhuthavilakkum (2023), among others. Sathyan is referring to the audience in Kerala

But a big part of this boom is the rising audience for Malayalam films outside of Kerala. "About 56 per cent of Manjummel Boys collection was outside of Kerala (largely Tamil Nadu) and this was for the Malayalam version," points out Shailesh Kapoor, CEO, Ormax Media.

"In the last 6-8 months a new breed

ing Malayalam cinema. Mumbai and Delhi are also turning out to be good markets especially since the sub-titling is top class," says Pillai. He reckons about 35 per cent of the revenues of the big hits come from outside of Kerala this could be the rest of India or the overseas box office. Malayalam has always been one of the best cinemas in India's ₹19,700 crore (total revenues) movie ecosystem. From a storytelling

What has changed now?

ered over the decades.

and cinematic perspective, it has deliv-

Unni Warrier, senior special correspondent who covers cinema for Malayala Manorama, offers his take. In 2010, Kerala had just over 1,000 screens, according to the Film Federation of India data. Like most other cinemas, this has been falling steadily hitting a low of 400 a while back.

2600012200

This had been causing distress when streaming came in 2016 with loads of money. Warrier reckons that for 6-7 years ending in 2023, most producers were making films only for OTTs.

The average budget of Malayalam films is around Rs 15 crore. Many of them were making anywhere from ₹17-27 crore from streaming rights alone. This meant profits without the effort of a theatrical release. The trend accelerated during the pandemic.

In January 2023, streaming services, facing investor scrutiny. decided to cut back on spends, across the world. Many decided to buy movies only after a theatrical release. This was true across lan-

guages. "It was a crisis but it did a world of good for the Malayalam film business," says Warrier.

The ecosystem pivoted back to the theatres, creatively and commercially. "Theatres in Kerala upgraded their seating, and sound system," savs Mehta, "So many theatres have been renovated, and there is no need to go far away," says Sathyan.

More screens got added too with PVR-Inox opening a 9-screen multiplex in Kochi last month. This is PVR's third in the city, which takes its tally of screens in Kerala to 22. The state has over 500 screens now. The timing couldn't be better. According to Ormax, in 2023 more than 157 million Indians bought 943 million tickets to the cinema in what has been a record year.

But this is a different audience from the pre-pandemic one. It has tasted fare from across the world and from within India on streaming and in the theatres. All it seeks is a good film, a good story and the next big screen experience, irrespective of where it comes from, say analysts

> That explains why there were over two dozen domestic crossovers or pan-Indian films such as Animal, Salaar, and Jawan in 2023, up from a handful in 2019, according to Ormax. Many have been hugely successful leading to an expansion of the audience for many Indian cinemas -Marathi, Telugu, Tamil. and Hindi. Malayalam simply joined the party in 2024. Sathyan and Warrier point to another change - the expansion of the overseas market especially in the Gulf countries where many Malayalis work. "Earlier films were sold to agents for release in markets outside India; now producers are releasing them directly,"

From sav ₹2-5 crore for a one-time sale of rights, the takings for successful films could be ten times as much. And if the movie is a theatrical success, the price that streaming and television firms are willing to pay rises

says Warrier.

How sustainable is this boom? "It is sustainable because they (producers) are making films for the theatre," savs Warrier.

Pai Platforms drives into ride hailing via ONDC

MUMBAI | FRIDAY, 10 MAY 2024 Business Standard

Mumbai, 9 May

Paytm founder Vijay Shekhar Sharma's Pai

Platforms is experimenting with a ride-hailing feature through the Open Network for Digital Commerce testing phase and not all the (ONDC) route, a person in users may have access to it. the know said.

The platform, The platform formerly known as will join a list Paytm E-com- of a few firms merce, will join a in ONDC's list of a few com- **mobility space** panies in ONDC's to offer services mobility space to

offer services. For instance, other platof their ride-hailing service on ONDC in December

last year. Paytm did not respond to queries sent by Business

Standard till press time. 'The feature is still in the

> Through ONDC route, Pai offers other services like groceries. among things," the person said. Last

month, the Pai platform mistakenly launched PaiPai, an app on forms such as Yaary, a group ONDC, ahead of its schedrepresenting Hyderabad's ule. It was later taken down auto rickshaw and taxi driv- from the Play Store.

Zeta eyes 50% of \$1 trillion credit line on UPI scheme tech opportunity

PEERZADA ABRAR Bengaluru, 9 May

Zeta, which provides nextgen banking technology to institutions globally, is launching a digital credit-as-a-service offering as part of its strategy to democratise credit.

SoftBank-backed Zeta's offering is underpinned by the National Payments Corporation of India's Credit Line on Unified Payments Interface (UPI) scheme.

Zeta estimates that the transaction volume on this scheme will exceed \$1 trillion by 2030. It aims to capture 50 per cent of this market opportunity with its end-to-end solution that can help banks conceive and rapidly launch multiform credit products.

"India is a highly underpenetrated market when it comes to credit. There are over 800 million credit-eligible adults in the country, and less than 30 per cent of them are adequately served when it comes to their credit needs," said Bhavin Turakhia, co-founder and chief executive officer of Zeta, in an interview.

atre," says filmmaker Akhil Sathyan. of non-Malavali audiences is discover-Notice cum Addendum to the Scheme Information Document (SID) and Key SUNDARAM MUTUAL Information Memorandum (KIM) of the Schemes of Sundaram Mutual Fund REVISION OF PRODUCT LABELLING ('RISK-O-METER') OF SCHEMES OF SUNDARAM MUTUAL FUND NOTICE is hereby given to the investors / unit holders that pursuant to SEBI circular no. SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2020/197 dated October 05, 2020 the Risk-o-meter of the schemes of Sundaram Mutual Fund ("the Fund") shall stand revised as under. Existing Risk-o-meter (Based on scheme Revised Risk-o-meter (Based on scheme Name of the Scheme Sundaram Ultra Short Duration Fund Sundaram Equity Savings Fund Investors are requested to note that, apart from the change in the Risk-o-meters as stated above, there is no other change in the scheme features including nature, investment objective, asset allocation pattern, terms and conditions of the above All other terms and conditions of the Scheme Information Document(s) / Key Information Memorandum(s) / Statement of Additional Information will remain unchanged. This addendum forms an integral part of the Scheme Information Document (SID) / Key Information Memorandum (KIM) / Statement of Additional Information (SAI) to the schemes of Sundaram Mutual Fund as amended from time to time. For Sundaram Asset Management Company Ltd Company Secretary & Compliance Officer Date: May 10, 2024 **Corporate Office:** 1st & 2nd Floor, Sundaram Towers, 46, Whites Road, For more information please contact: Royapettah, Chennai-14. **Sundaram Asset Management Company Ltd** Contact No. (India) 1860 425 7237, (Investment Manager to Sundaram Mutual Fund) (NRI) +91 40 2345 2215 Fax: +91 44 2841 8108. CIN: U93090TN1996PLC034615 www.sundarammutual.com Regd. Office: No. 21, Patullos Road, Chennai 600 002.

Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Kochi - 682024 Tel: 0484-7161100

EASTERN TREADS LIMITED CIN: L25119KL1993PLC007213 Read, Office: No 3A, 3rd Floor Eastern Corporate Office, 34/137E, NH Bypass, Edappally,

Email: treads@easterntreads.com, web: www.easterntreads.com

such shares or where the shares are hypothecated/pledged under the Depositories Act, 1996.

The concerned shareholder(s), holding share(s) in physical form may please note that the shares are liable to

be transferred to the IEPF account after issuing duplicate share certificate for the purpose in favour of the IEPF

Authority as per the rules and upon issue of such duplicate

share certificate(s), the original share certificate(s) which stand registered in their name will be deemed to have been cancelled and non-negotiable. In case of shares held in

demat form and liable to be transferred to IEPF, the

company shall inform the depository by way of corporate action for transfer to the demat account of the IEPF

Upon transfer to IEPF Authority, the voting rights on such

shares shall be frozen and all benefits accruing on such shares, will be credited to the account of IEPF Authority
No claim shall lie against the Company in respect o

unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF

Authority. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF authority shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from IEPF authorities, after its transfer to IEPF, after following procedure prescribed in the rules.

In case you need any assistance in this regard, please contact the undersigned at its Registered Office address or Company's Registrar and Transfer Agent, i.e.

Integrated Registry Management Services Private Limited 2nd Floor, Kences Towers, No. 1, Ramakrishna Street

North Usman Road, T. Nagar, Chennai - 600017. Telephone No. 91-44-2814081/802/803 E-mail: yuvraj@integratedindia.in or CS Abil Anil, Company Secretary, No.3A, 3rd Floor, Eastern Corporate Office, 34/137E, NH Bypass, Edappally, Kochi - 682024, tel: 0484 7161247, Email ID: cs@easterntreads.com.

for EASTERN TREADS LIMITED

OSBI UNWAVERING TRUST OF 50 CR+ CUSTOMERS DEFINES OUR BANKING EXCELLENCE Company of the Year Award' For Corporate Excellence

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

Particulars

31/03/2024	31/03/2023
(Audited)	(Audited)
594574.90	473378.14
98340.04	75398.56
91240.04	75398.56
67084.67	55648.17
892.46	892.46
	1

₹ In Crore

Year

	31/03/2024	31/03/2023	31/03/2024	31/03/2023	31/03/2024	31/03/2023	31/03/2024	31/03/2023
	(Audited)							
Total Income from operations (including exceptional items)	128411.88	106912.46	466812.82	368718.66	164914.36	136852.39	594574.90	473378.14
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, exceptional and/or extraordinary items)	27137.77	21305.40	88882.96	67205.64	28851.86	23435.57	98340.04	75398.56
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	27137.77	21305.40	81782.96	67205.64	28851.86	23435.57	91240.04	75398.56
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	20698.35	16694.51	61076.62	50232.45	21384.15	18093.84	67084.67	55648.17
Paid up Equity Share Capital	892.46	892.46	892.46	892.46	892.46	892.46	892.46	892.46
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	348798.42	298959.73	348798.42	298959.73	386491.06	330282.60	386491.06	330282.60
Earnings Per Share (face value of ₹1/- each) (for continuing and discontinued operations) (₹) (Quarter numbers not annualised)								
Basic :	23.19	18.71	68.44	56.29	23.96	20.27	75.17	62.35
Diluted :	23.19	18.71	68.44	56.29	23.96	20.27	75.17	62.35
Total comprehensive income for the period {Comprising Profit /(Loss) for the period after tax) and Other Comprehensive income after tax)}				Refer No	ote No.2			

after tax)}								
Securities Premium Account	79115.48	79115.48	79115.48	79115.48	79115.48	79115.48	79115.48	79115.48
Net Worth	324715.48	276562.79	324715.48	276562.79				
Debt Equity Ratio	0.87	0.66	0.87	0.66				
Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-				
Capital Redemption Reserve	-	-	-	-				
Debenture Redemption Reserve	-	-	-	-				
Outstanding Debt	597560.91	493135.15	597560.91	493135.15				

The above is an extract of the detailed format of Quarter / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 & Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter/ Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites: www.bseindia.com, www.nseindia.com and Bank's Website: bank.sbi

Information relating Total Comprehensive Income and Other Comprehensive Income is not furnished as Ind AS is not yet made applicable to the Banks

Place: Mumbai

Dinesh Kumar Khara Chairman

This notice is published pursuant to Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") as

amended. Pursuant to Section 124, other applicable provisions of the Companies Act, 2013, and the Rules, the

dividend, which remain unclaimed for a period of 7 years

and the shares on which dividend, was unclaimed for 7 consecutive years or more are to be transferred to

Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF

Shareholders are hereby informed that the Final dividend

declared for the FY 2016-17, which remained unclaimed for a period of 7 years will be credited to the IEPF by the next due date of transfer, 12th August 2024. The

corresponding shares on which dividend was unclaimed for 7 consecutive years or more will also be transferred as

In compliance to the rules, the Company will be sending individual communication to the concerned shareholder

and the details of shareholders who have not claimed their dividend for the past seven years will be made available in

the company's website www.easterntreads.com under

The shareholders are requested to claim the Final dividend declared for the FY 2016-17 and onwards before the same is transferred to IEPF. In case the company does not

receive any communication from the shareholders concerned by 11th August 2024 the company shall with a view to complying with the requirements of the Rules, transfer the unclaimed dividends to IEPF Account and the

corresponding shares on which dividend is unclaimed for 7 consecutive years or more shall also be transferred on

such date as may be prescribed as per the procedures set out in the Rules, without any further notice. The Company will not transfer such shares to the IEPF where there is a

specific order of court/ tribunal restraining any transfer of

09 May 2024

per the procedure set out in the rules.

Company Secretary Note: The shareholders are requested to: (1) to register your correct address and email id with your depository participant concerned (2) update your complete bank account details with your depository participant for prompt direct credit of dividend entitlements (3) to approach us or RTA for any of your previous years unclaimed dividend entitlements

Date: 09.05.2024

STATE BANK OF INDIA, CORPORATE CENTRE, MADAME CAMA ROAD, MUMBAI - 400 021.

Follow Us On f 🖸 🖎 🔞 📵 🧿

By Order of the Board

Abil Anil











Thane: The Navi Mumbai police have registered an FIR against three persons on charges of promoting enmity between different religious groups through a video on former Maharashtra ATS chief Hemant Karkare. As per the

complaint, the accused made the video which was presented as a true story even as it is based on wrong information. The video was uploaded on Youtube and







Pet Saffa Rog Daffa



Divisa Herbal Care presents Pet Saffa Ayurvedic Granules/ Tablets. Easy to take & gives results from the

20% EXTRA Ayurvedic Proprietary Medicine ☞ (Safe for daily use

It does not cause addiction

(No Side Effect

www.petsaffa.com

Available at all medical &

PLEA TO IMPROVE RAILWAY SAFETY RECORD

Brother of IT professional who fell off a local train and died proposes list of measures to improve safety

KAMAL MISHRA / MUMBAI

In the wake of the death of Avadhesh Dubey, who lost his life after falling from a crowded local on April 23, his elder brother Deepak has urged authorities to address safety concerns in Mumbai's train system.

Deepak has proposed significant measures to improve safety, including the conversion of all fast local trains, especially during rush hours, into 15-car trains. Additionally, he has urged the implementation of queue management systems at each platform to facilitate orderly boarding and de-boarding.

To address the issue of door blocking and prevent accidents like the one that claimed his brother's life, Deepak suggests installing CCTV cameras on the doors of local trains.

The demand for these measures comes amidst growing concerns over overcrowding and safety hazards in Mumbai's train network.





On May 9, which would have been Avadesh's 26th birthday, volunteers came together to distribute buttermilk to people

Avadhesh, a 25-year-old IT professional from Dombivli, died after falling from a crowded train between Diva and Mumbra stations. His untimely passing spurred his brother and many others to action, urging railway authorities to address the issue of overcrowding to ensure passenger safe-

In honour of Avadhesh's memory, on Thursday May 9, which would have been his 26th birthday, volunteers came together to distribute buttermilk to those in need during extreme heat condi-

Avadhesh's case is not isolated. Within 20 days of his death, two more individuals from Dombivli, Riya Rajgor and Rahul Purushottam Ashtekar, also lost their lives under similar circumstances.

Deepak has taken to social media to voice the community's frustration and has posted a list of demands directed at railway authorities. These include measures such as mandatory 15-coach locals, affordable auto door closing trains, and improved infrastructure and safety proto-

"Logical demands raised by commuters are accepted and railway administration makes all the efforts to fulfil those," a Central Railway official said. "Central Railway is running the maximum possible number of trains with existing infrastructural constraints. Railway administration has been requesting various installations for staggered timings to the offices so that the peak can be spread over a larger period of time. It is again reiterated that passengers should start their journey a bit early to avoid boarding congested trains or travelling in inappropriate manner," the offi-

KEY DEMANDS

day one.

- Convert all fast 12-car local trains into 15-coach trains, especially during peak hours
- Provide auto door closing system in each and every
- Provide boardingdeboarding marks on the platform and implement a queue management system
- Provide a doctor at all railway stations
- Ensure comprehensive safety and security, including the provision of CCTV coverage throughout the suburban railway premises, with the addition of audiovideo devices on railway employees
- Improve turnaround times for accident

2 molest woman in shared rickshaw

MEGHA KUCHIK / MUMBAI

A woman jumped out of a running autorickshaw in Borivali on Wednesday after she was allegedly molested by a co-passenger in the shared vehicle, according to police.

Officials said the accused, identified as *Dheeraj Kumar* Tiwari (left), 40, and Sanjeev Dhut Ram, 32, were autorickshaw drivers and residents of Kandivali (West). They are in custody and the police has filed a case of molestation, the officials said.

Senior Inspector Ninad Sawant said Tiwari has a prior case of murder registered against him 16 years ago; Ram has no prior criminal record, he said.

According to the police, the 29-year-old complainant lives in Poisar, and is employed by a private company. On May 8, at 8.30am, she left for work. While travelling in the shared rickshaw, her co-passenger tried to molest her. The woman jumped out of the



rickshaw near the SV Road signal at Saibabanagar, sustaining slight injuries.

The woman then approached nearby police, and was taken to Shatabdi Hospital. The driver absconded with her purse, containing valuables including two mobile phones.

She reported the incident to Sawant, leading to the registration of a case under Sections 354 (assault to woman with intent to outrage her modesty), 341 (wrongful restraint), 403 (dishonest misappropriation of property), 114 (abettor present when the offence is committed), 34 (common intention) of the Indian Penal Code against both the

122 shipping containers held in massive operation at JNPT

Customs Officials suspect that they contain banned Chinese fireworks, electronic items, microchips and other contraband

ASHISH SINGH / MUMBAI

In one of the largest such operation since 2010, the Custom Central Intelligence Unit (CIU) of Jawaharlal Nehru Custom House (JNCH) has put on hold 122 containers on suspicion of containing banned Chinese fireworks, electronic items, microchips, and other contraband.

The containers are alleged to have been brought through ialse declarations. The CIU has issued an order stating that it has received confidential intelligence related to these containers.

The CIU has instructed all managers of Container Freight Stations (CFS) and terminals to submit details of the containers, including bills of entries, assessment, and examination status, via email with the subject 'Monday

According to sources, all 122 containers arrived at JNPT aboard the same ship.

The sources suggest that the agency has information about the supply of trade goods linked to duty evasion and banned fireworks. However, the specific information received by the CIU and the purpose of their search are known only to a few officers. The customs department has not officially released any information regarding the op-

DRI-CUSTOMS COLLABORATION

In 2009-2010, the Directorate of Revenue Intelligence had collaborated with the customs department to conduct a massive operation detaining 2,500 containers. At the time, banned items such as Chinese fireworks trade goods and mis-declared items.

According to reliable sources, the search and examination of these containers is lengthy and complex process. As a result, it has been decided that the Deputy Commissioner (DC) of several Container Freight Stations (CFS) and docks will examine the containers on their premises. They will focus on the containers marked as "hold" and examine the bill of entry for any misdeclared

According to the sources, the customs received specific information about these containers during the examination of several containers that arrived at the Punjab Conware warehouse in Navi Mumbai. The officials found banned Chinese fireworks, all originating from the same Chinese supplier who was earlier identified in a similar

case. Consequently, all containers associated with the supplier were placed on hold and referred to the CIU. While some containers have been cleared, others continue to reveal Chinese firecrackers, trade goods, mis-declared prohibited electronic items,

microchips, and other items. The import of fireworks is restricted under customs rules and requires a licence from the Directorate General of Foreign Trade (DGFT). The measure is aimed at preventing the influx of poor-quality foreign firecrackers containing toxic chemicals like redlead and lithium. China has been suspected of smuggling contraband consignments of banned fireworks for distribution and sale in India.

In 2009-2010, the Directorate of Revenue Intelligence had collaborated with the customs department to conduct a massive operation detaining 2,500 containers. At the time, banned items such as Chinese fireworks, trade goods and mis-declared items were

found in the containers. In a two-month-long operation, the DRI and customs inspected all 2,500 containers, leading to the seizure of banned items from more than 50 containers. Those involved were not only served showcause notices but also faced penalties amounting to crores

UNWAVERING TRUST OF 50 CR+ CUSTOMERS DEFINES OUR BANKING EXCELLENCE Company Award 2023



Particulars

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,

Net Profit / (Loss) for the period before tax

Net Profit / (Loss) for the period after tax

Reserves (excluding Revaluation Reserve)

Earnings Per Share (face value of ₹1/- each)

(for continuing and discontinued operations) (₹) (Quarter numbers not annualised)

Total comprehensive income for the period

after tax) and Other Comprehensive income

Outstanding Redeemable Preference Shares

{Comprising Profit /(Loss) for the period

(after exceptional and/or extraordinary items)

(after Exceptional and/or Extraordinary items)

exceptional and/or extraordinary items)

Total Income from operations

(including exceptional items)

Paid up Equity Share Capital

Securities Premium Account

Capital Redemption Reserve

Debenture Redemption Reserve

Diluted:

after tax)}

Net Worth

Debt Equity Ratio

Outstanding Debt

Place: Mumbai



AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER AND YEAR ENDED MA

(Audited)

128411.88

27137.77

27137.77

20698.35

892.46

23.19

23.19

79115.48

324715.48

597560.91

0.87

348798.42 298959.73

31/03/2023

(Audited)

106912.46

21305.40

21305.40

16694.51

892.46

18.71

18.71

79115.48

276562.79

493135.15

0.66

ARCH 31, 2	2024				₹ In Crore
LONE			CONSO	IDATED	
Year ended 31/03/2024	Year ended 31/03/2023	Quarter ended 31/03/2024	Quarter ended 31/03/2023	Year ended 31/03/2024	Year ended 31/03/2023
(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
466812.82	368718.66	164914.36	136852.39	594574.90	473378.14
88882.96	67205.64	28851.86	23435.57	98340.04	75398.56
81782.96	67205.64	28851.86	23435.57	91240.04	75398.56
61076.62	50232.45	21384.15	18093.84	67084.67	55648.17
892.46	892.46	892.46	892.46	892.46	892.46
348798.42	298959.73	386491.06	330282.60	386491.06	330282.60
68.44	56.29	23.96	20.27	75.17	62.35
68.44	56.29	23.96	20.27	75.17	62.35

Refer Note No.2

79115.48

79115.48

276562.79

0.66

Bangladeshi woman held for illegal stay

items.

SOMENDRA SHARMA / MUMBAI

Police have arrested a 26year-old Bangladeshi woman for illegally staying in Mumbai and procuring an Aadhaar card by submitting bogus documents.

According to the DB Marg police, the woman, Julie Nazrul Islam Mandal alias Priyanka Zakaria Mulla, is a resident of Chandpur village in Khulna, Bangladesh.

'She came to India with the help of a Bangladeshi woman, who helped her cross the border. Mandal said that the woman left her in a boat in West Bengal. After staying in West Bengal for a few days, she travelled by train to Mumbai in search of work, and worked Mahim," an official said.

The police have seized a phone, containing several Bangladeshi number and details of an Aadhaar card. The police said that Mandal entered India by illegal means of infiltration without any valid travel documents and without written permission from the authorities at the India-Bangladesh

border. A case has been registered by the police under sections 465 (forgery), 468 (forgery for purpose of cheating) and 471 (using as genuine a forged document or electronic record) of the Indian Penal Code and relevant sections of the Foreigners Act and Passport (Entry into India)

Woman kills herself; kids found dead

Mumbai: A 30-year-old woman died by suicide in Nashik on Wednesday, while her two children were found dead at her home, an official said. Police suspect Ashwini Nikumbh, who left behind a video message blaming her husband, poisoned her children Aaradhya (eight) and Agastya (two).

Around 7am, Ashwini jumped from the terrace of Hari Vandan Apartment in the Konark Nagar area. After being alerted by residents, the police reached the spot and found her two children dead at home. Her husband was out of station at the time.

The police have recovered a hand-written note, purportedly written by Ashwini, blaming her husband Swapnil for torturing her.

The above is an extract of the detailed format of Quarter / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 & Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter/ Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites: www.bseindia.com, www.nseindia.com and Bank's Website: bank.sbi Information relating Total Comprehensive Income and Other Comprehensive Income is not furnished as Ind AS is not yet made applicable to the Banks.

79115.48

324715.48

597560.91

0.87

Date: 09.05.2024 STATE BANK OF INDIA, CORPORATE CENTRE, MADAME CAMA ROAD, MUMBAI - 400 021.

By Order of the Board **Dinesh Kumar Khara**

79115.48



79115.48

79115.48

Follow Us On 🚯 🖸 🖠 🔞 📵 🧿

सभी दलों में मुफ्त उपहारों की होड़: सुब्बाराव

बीएस संवाद

डी. सुब्बाराव रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और पूर्व वित्त सचिव दुवुरी सुब्बाराव के संस्मरणों की पुस्तक 'जस्ट अ मर्सिनरी? नोंट्स फ्रॉम माइ लाइफ ऐंड करियर' हाल ही में प्रकाशित हुई है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने राजकोषीय चिंताओं, मुफ्त उपहारों, कृषि ऋण माफी, 2जी घोटाले और मुद्रास्फीति का लक्ष्य तय करने समेत तमाम विषयों पर बात की। मुख्य अंशः

आपकी पस्तक में उल्लेख है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में राजकोषीय विस्तार की नीतियां अपनाई। आपने कहा कि ऐसी नीतियां विकसित देशों में मंदी के दौरान कारगर हो सकती हैं लेकिन भारत जैसे उभरते बाजार में नहीं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैंने यह बात यूरो क्षेत्र के सॉवरिन ऋण संकट के संदर्भ में कही थी जो वैश्विक वित्तीय संकट के तुरंत बाद आया था। शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने राजकोषीय मितव्ययिता अपनाई। तमाम अन्य जगहों की तरह उन्होंने पूर्वी एशिया पर जो थोपा, वही बात यूरोप में कही और फिर पाया कि अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक से अधिक है।

उन्होंने पाया कि राजकोषीय गुणक अनुमान से अधिक थे। आईएमएफ ने कम से कम उस समय माना कि उससे गलती हुई है। इसलिए शायद मितव्ययिता की सलाह उचित नहीं। नोबेल विजेता जोसेफ स्टिगलिट्ज भी लंबे समय से ऐसा कह रहे हैं। हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री ने पाया कि राजकोषीय संकुचन सही नहीं होगा। जहां तक मौजूदा वित्त मंत्री की बात है तो उन्होंने शिथिल राजकोषीय समेकन अपनाया और 2025-26 तक 4.5 फीसदी के राजकोषीय घाटे की लंबी अवधि तय की। यह अनमान से अधिक शिथिलता थी लेकिन वह कामयाब रहीं और इसका श्रेय उन्हें जाता है।

क्या कर्ज का ऊंचा स्तर आपको चिंतित करता है? यकीनन। मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के कर्ज को मिलाकर देखें तो अभी उसका स्तर ऊंचा है। कोविड के दौरान वह 90 फीसदी तक पहुंचा था और अब कछ कम है। परंत राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समिति का कहना है कि भारत में कर-जीडीपी अनपात 60 फीसदी तक होना चाहिए। केंद्र के लिए 40 फीसदी और राज्यों के लिए 20 फीसदी। हम इससे बहुत दूर हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हमें 60 फीसदी पर अड़ना नहीं चाहिए। मैं उनसे सहमत हूं।

आपने कहा कि भारत जैसे उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को रेटिंग एजेंसियों की ग्रेडस को लेकर उदासीन नहीं होना चाहिए। बहरहाल, वित्त मंत्री ने हाल ही में एक रिपोर्ट का हवाला दिया कि उभरते बाजारों की रेटिंग का इन एजेंसियों का तरीका खामी भरा है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को हमेशा चुनौती दी जा सकती है। आप उनसे कह सकते हैं कि वे निष्पक्ष आंकड़ों के आधार पर आकलन की समीक्षा करें। अमेरिका और चीन समेत दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जो कहे कि हमें इन एजेंसियों की रेटिंग से फर्क नहीं पडता। रेटिंग मायने रखती हैं, खासतौर पर उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए।

मौजदा समय की बात करें तो क्या आपको लगता है कि रिजर्व बैंक अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए 5 फीसदी प्रोविजनिंग की बात करते हुए कुछ ज्यादा ही सतर्क है? बाजारों को यह सुझाव रास नहीं आया है।

यह संभव है कि संस्थान इसे लेकर उत्तेजित हों क्योंकि उन्हें अपना मुनाफा देखना है, अपनी बैलेंस शीट देखनी है। परंतु रिजर्वे बैंक व्यापक अर्थव्यवस्था को देख रहा है। वह शायद बड़ी तस्वीर देख रहा है कि भविष्य की दिक्कतों से बचने के लिए यह कीमत चुकाई जा सकती है। हम एक दशक तक फंसे हुए कर्ज की समस्या से जुझते रहे। वह भी अनुचित मानकों की वजह से पैदा

सब जानते हैं कि राजग सरकार के आगमन में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की अहम भिमका थी। आपने अपनी पस्तक में 2जी लाइसेंसिंग नीतियों के औचित्य को समझाने के लिए एक उदाहरण का हवाला दिया है। क्या आपको

लगता है कि प्रमुख मंत्रालयों के वरिष्ठ अफसरशाह वाकर्ड इस बात से चिंतित रहते हैं कि अगर उनके किसी निर्णय से राजस्व हानि हुई तो बाद में सीबीआई या ईडी उन पर मामला चला सकती है?

मैं वर्तमान अफसरशाही की चिंताओं को लेकर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं लेकिन मैं उन्हें समझ सकता हूं। मैं 35 वर्षों तक आईएएस अधिकारी रहा। अफसरशाहों की यह चिंता बढ़ी है कि उनके मुताबिक जनहित में लिए जाने

वाले निर्णय बाद में उन पर भारी पड़ सकते

दूसरी ओर कुछ भी नकारात्मक नहीं करने पर कोई दंड नहीं है। ऐसे में बच-बचकर चलना केवल आईएएस अधिकारियों की नहीं बल्कि सहज मानवीय प्रवृत्ति है। परंतु यह देश के हित में

आपने उस अनुमानित नुकसान के बारे में लिखा है जिसकी गणना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

(सीएजी) ने 2जी स्पेक्ट्रम को लेकर की। क्या आपको लगता है कि अगर सीएजी अनुमानित नकसान पर नहीं अडता तो राजनीतिक इतिहास

वास्तविक जीवन में प्रतितथ्यात्मक बातें यानी क्या हो सकता था. ऐसी बातें हमेशा कठिन होती हैं। पहले राष्ट्रमंडल घोटाले का मामला उठा, उसके बाद कोयला घोटाला और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने गोवा में खनन रोका। ऐसे में मैं तो यही अनुमान लगाऊंगा कि राजनीतिक घटनाक्रम अलग हो सकता था।

आपने मुफ्त उपहारों तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'रेवड़ी संस्कृति' वाली टिप्पणी की बात की। मुफ्त उपहारों और समाज कल्याण के उपायों के



बीच बहुत कम अंतर है। आप इन्हें कैसे बांटेंगे। मसलन केंद्र की मुफ्त खाद्यान्न योजना और दिल्ली सरकार के 'मोहल्ला क्लिनिक' या फिर सरकारी स्कूलों में सुधार को दोनों में से किस श्रेणी में रखेंगे?

मुझे लगा था कि 'रेवड़ी' संस्कृति पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी स्वागतयोग्य है। परंतु मुझे इस बात से निराशा हुई कि प्रधानमंत्री ने उस पर अमल नहीं किया। भाजपा समेत सभी राजनीतिक दल इसके दोषी हैं। कछ दसरों से अधिक दोषी हैं। भाजपा ने 2017 में उत्तर प्रदेश में कृषि ऋण माफी की। अब मोदी की गारंटियां, कांग्रेस की 'न्याय' योजना सामने है। मेरे गृह राज्य आंध्र प्रदेश में साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष में मुफ्त उपहारों की होड़ लगी है। कोई नहीं पुछ रहा है कि इसके लिए पैसा कहां से

आएगा ? मैं इसे लेकर असहज हूं। यह सब टिकाऊ नहीं है और इसे लेकर जागरूकता का सख्त अभाव है।

आपने अपनी किताब में कृषि ऋण माफी के नुकसान की बात की है। परंतु आपने नाबार्ड के एक अध्ययन का भी जिक्र किया है जो कहता है कि सन 1987 में हरियाणा में देवीलाल की सरकार की घोषणा के बाद से अब तक कृषि ऋण माफी की घोषणा करने वाले केवल चार राजनीतिक दल चुनाव हारे हैं। ऐसे में कोई राजनीतिक दल इससे क्यों बचेगा? आपने मैनकर ओल्सॉन की पुस्तक 'लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शनः पब्लिक गुँड्स ऐंड द थियरी ऑफ ग्रप्स' अवश्य पढ़ी होगी। हम हमेशा सोचते हैं कि कृषि माफी सरकार और किसानों के बीच का मामला है और यह हमें नहीं प्रभावित करता। परंत यह हम पर असर डालता है। भले ही मैं सुदूर आंध्र प्रदेश या केरल में रहूं, या पूर्वोत्तर के मणिपुर में लेकिन उत्तर भारत में होने वाली कृषि ऋण माफी मुझे प्रभावित करती है। किसानों का एक हित समूह है और वह एकजुट हो सकते हैं। परंतु इससे प्रभावित होने वाली व्यापक आबादी के बारे में कोई बात नहीं करता। व्यापक आबादी को संगठित करना बडा काम है। यह कभी नहीं होता।

मुद्रास्फीति को लक्षित करने पर आपका क्या विचार है। खासतौर पर दो बातों को लेकर- क्या इससे संचार आसान होता है और क्या सरकार पर से दबाव कम होता है?

मुद्रास्फीति को लक्षित करने को लेकर मेरी कुछ शंकाएं थीं लेकिन अब कई वजहों से वे दूर हो चुकी हैं। मुद्रास्फीति को लक्षित करने को लेकर मेरी सबसे बड़ी आशंका यह थी कि मुद्रास्फीति आपूर्ति के झटकों से उत्पन्न होती है। उस स्थिति में मौद्रिक नीति सही उपाय नहीं है। अगर मुद्रास्फीति का लक्ष्य हो फिर भी शायद केंद्रीय बैंक उसे मौद्रिक नीति की मदद से कम नहीं कर पाए। यह बात केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता पर असर डालेगी। परंतु समय के साथ हमने पाया कि मुद्रास्फीति आपूर्ति के झटकों की प्रतिरोधी है और इसलिए मौद्रिक नीति इसमें कारगर होगी।

अगर सरकार राजकोषीय समेकन के लक्ष्य पर न टिके तो मौद्रिक नीति का संचालन कितना मुश्किल होता है?

यह मुश्किल होता है क्योंकि सार्वजनिक नीति में विश्व-सनीयता अहम है। खासतौर पर केंद्रीय बैंक के मद्रास्फीति प्रबंधन के मामले में। अगर राजकोषीय शिथिलता मुद्रास्फीति को प्रभावित कर रही हो तो यह मौद्रिक नीति के लिए दिक्कत की बात है।

चुनावी मुकाबला नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी :शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हैं और इसमें मुकाबला 'विकास के लिए वोट' और 'जिहाद के लिए वोट' के बीच है। तेलंगाना में एक चुनावी रैली में शाह ने कहा कि चुनाव प्रधानमंत्री मोदी की 'भारतीय गारंटी' और राहल गांधी की 'चीनी गारंटी' के बीच है।

कांग्रेस, एआईएमआईएम और बीआरएस को 'तुष्टीकरण की तिकडी' बताते हुए शाह ने कहा कि



अमित शाह, गृह मंत्री

आधार पर चलाना चाहते हैं।' शाह ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के अब तक हुए पहले तीन ये दल राम नवमी जलस नहीं चरणों में भाजपा को करीब 200 निकालने देते और सीएए का विरोध सीटों पर जीत मिलेगी और पार्टी को ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में भी करते हैं। उन्होंने कहा, 'ये लोग 400 सीट के लक्ष्य को पार कराने में हैदराबाद मिक्त दिवस (17 मदद के लिए तेलंगाना को वोट देना सितंबर) नहीं मनाने देते। ये लोग होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने तेलंगाना को शरिया और कुरान के 2019 में तेलंगाना की 17 में से चार

लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को समझ लेना चाहिए कि भाजपा इस चुनाव में 10 सीट से ज्यादा पर विजय सुनिश्चित करेगी। भाजपा पर संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने के कांग्रेस के आरोपों का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस झूठ के सहारे चुनाव लडना चाहती है। कांग्रेस कहती है कि मोदी आरक्षण समाप्त कर देंगे. लेकिन उन्होंने पिछले 10 साल में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में रहते हुए ऐसा कुछ नहीं किया। शाह हालांकि कांग्रेस ने मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण देकर एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में

चुनाव प्रचार मौलिक हरियाणा में फिर सियासत अधिकार नहीं : ईडी गर्म, शक्ति परीक्षण की मांग

हरियाणा में लोक सभा चुनाव के दौरान राजनीतिक उठा-पटक शुरू हो गई है। हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी (जजपा) के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला और विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है, इसलिए उसे फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने राज्यपाल से शक्ति परीक्षण कराने की मांग की है।

चौटाला ने पत्र में कहा कि यदि कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो उनकी पार्टी समर्थन करेगी। एक दिन पहले चौटाला ने कहा था कि यदि कांग्रेस नायब सरकार को हटाना चाहती है तो वह उसके साथ है। बीते मंगलवार को 3 निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान (दादरी), रणधीर सिंह गोलन (पुंडरी) और धर्मपाल गोंडर (निलोखेड़ी) ने सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था।

चौटाला ने अपने पत्र में लिखा है, 'राज्य की गंभीर स्थिति को देखते हुए यहां स्थायित्व लाने और लोकतांत्रिक मुल्यों की रक्षा करने की सख्त जरूरत है। मैं सम्मानपूर्वक आपसे अनुरोध करता हूं कि अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए शक्ति परीक्षण कराने का



दृष्यंत चौटाला, जजपा अध्यक्ष

आदेश दें, ताकि सुनिश्चित हो जाए कि सरकार के पास बहमत है या नहीं।' कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शक्ति परीक्षण कराने की मांग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। कांग्रेस के पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस विधायक दल के उप नेता आफताब अहमद और मुख्य सचेतक बीबी बत्रा एवं पार्टी के अन्य नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल 10 मई को राज्यपाल से मिलना चाहता है।

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि हरियाणा में कांग्रेस के अधिकतर वरिष्ठ नेता इस समय सरकार बनाने के लिए इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि अगले विधान सभा चुनाव में कुछ ही महीने का समय बचा है।

ईडी ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर गुरुवार को हलफनामे के जरिये उच्चतम न्यायालय में विरोध दर्ज कराया और कहा कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक।

ईडी ने नए हलफनामे में कहा कि किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वह चुनाव नहीं लड़ रहा हो। अदालत ने बुधवार को कहा था, 'हम अंतरिम जमानत पर 10 मई को आदेश सुनाएंगे।'



बैंक **01.07.2024 से 30.06.2025** की अवधि के लिए शाखाओं /अन्य कार्यालयों के समवर्ती नेखा परीक्षा के कार्य के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किए जाने हैं। सनदी लेखाकार फर्म और हमारे बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी जो इसके लिए आवेदन करने के पात्र हैं, हमारी वेबसाइत https://punjabandsindbank.co.in/ क

अवलोकन करें तथा अपना विवरण प्रस्तुत करके ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन, पैन इंडिया के लिए आमंत्रित है। आवेदन करने की अंतिम तिथि **31 मई, 2024**

प्रधान कार्यालय निरीक्षण और




31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

₹ ਲਹੀਵ ਸ਼ੇਂ

	केवल भारतीय स्टेट बेंक				स्टेट बैंक समूह			
विवरण	31/03/2024 को समाप्त तिमाही	31/03/2023 को समाप्त तिमाही	31/03/2024 को समाप्त वर्ष	31/03/2023 को समाप्त वर्ष	31/03/2024 को समाप्त तिमाही	31/03/2023 को समाप्त तिमाही	31/03/2024 को समाप्त वर्ष	31/03/2023 को समाप्त वर्ष
	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
कुल परिचालन आय (अपवादात्मक मदों सहित)	128411.88	106912.46	466812.82	368718.66	164914.36	136852.39	594574.90	473378.1
इस अविध के लिए निवल लाभ / (हानि) (कर-पूर्व, अपवादात्मक तथा/अथवा असाधारण मर्दे)	27137.77	21305.40	88882.96	67205.64	28851.86	23435.57	98340.04	75398.5
इस अवधि के लिए कर-पूर्व निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	27137.77	21305.40	81782.96	67205.64	28851.86	23435.57	91240.04	75398.5
इस अविध के लिए कर-पश्चात निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक तथा/अथवा असाधारण मर्दो के पश्चात)	20698.35	16694.51	61076.62	50232.45	21384.15	18093.84	67084.67	55648.1
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी	892.46	892.46	892.46	892.46	892.46	892.46	892.46	892.4
आरक्षित निधियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को छोड़कर)	348798.42	298959.73	348798.42	298959.73	386491.06	330282.60	386491.06	330282.6
प्रति शेयर आय (प्रत्येक 1 रुपए के अंकित मूल्य के) (चालू एवं बंद परिचालनों के लिए) (₹) (तिमाही आंकड़े वार्षिकीकृत नहीं)								
बेसिक	23.19	18.71	68.44	56.29	23.96	20.27	75.17	62.3
डायल्यूटेड	23.19	18.71	68.44	56.29	23.96	20.27	75.17	62.3
अविध की कुल व्यापक आय (अविध के लिए कर-पश्चात लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय कर-पश्चात सहित)	संदर्भ के लिए नोट नंबर 2 देखें							
प्रतिभूति प्रीमियम खाता	79115.48	79115.48	79115.48	79115.48	79115.48	79115.48	79115.48	79115.4
निवल मालियत	324715.48	276562.79	324715.48	276562.79				
कर्ज इक्विटी अनुपात	0.87	0.66	0.87	0.66				
बकाया मोचनीय अधिमानी शेयर	-	-	-	-				
पूंजी मोचन आरक्षित निधि	-	-	-	-				
डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि	-	-	-	-				
बकाया ऋण	597560.91	493135.15	597560.91	493135.15				

- 1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 एवं विनियम 52 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास जमा किए गए तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश हैं। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट: www.bseindia.com, www.nseindia.com और बैंक की वेबसाइट: bank.sbi पर उपलब्ध है।
- कुल व्यापक आय और अन्य व्यापक आय से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है क्योंकि भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) को अभी तक बैंक पर लागू नहीं किए गए है।

स्थान : मुंबई दिनांक: 09.05.2024





भारतीय स्टेट बेंक, कॉरपोरेट केंद्र, मादाम कामा रोड, मुंबई - 400 021.

हमें फॉलो करें 🛭 🖸 🛇 🕫 📵 🧿

मध्य रेल्वेवर प्तटफार्म विस्ताराद्या पाँवरब्लांक

शनिवारी रात्री भायखळा, वडाळा रोड ते सीएसएमटी लोकलसेवा राहणार बंद

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकातील लांब पल्ला गाड्यांच्या प्लॅटफॉर्म विस्ताराचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या कामासाठी शुक्रवार, १० आणि शनिवार, ११ मे रोजी मध्य रेल्वेवर रात्री पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉक दरम्यान शुक्रवारी रात्री लोकलसह मेल-एक्सप्रेस गाड्यांच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे. तर शनिवारी रात्री १२.३० नंतर भायखळा ते सीएसएमटी आणि वडाळा रोड ते सीएसएमटी स्थानकादरम्यान लोकल वाहतूक पहाटे साडेचार वाजेपर्यत पुर्णपणे बंद राहणार आहे.

प्लॅटफॉर्म विस्ताराच्या कामासाठी शुक्रवारी रात्री भायखळा ते सीएसएमटी स्थानकादरम्यान अप आणि डाउन जलद मार्गावर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत मडगाव-सीएसएमटी जनशताब्दी एक्स्प्रेस, मडगाव-सीएसएमटी तेजस एक्स्प्रेस, अमृतसर-सीएसएमटी एक्स्प्रेस, भुवनेश्वर-मुंबई कोणार्क एक्स्प्रेस, हावडा-सीएसएमटी मेल दादर स्थानकांपर्यतच चालविण्यात येणार आहे, तर सीएसएमटी स्थानकातून रात्री ९.५४ वाजता सुटणारी कल्याण लोकल आणि रात्री ११.०५ वाजताची कल्याण ते सीएसएमटी लोकल रह करण्यात आली आहे.

तसेच शनिवारी रात्री भायखळा ते सीएसएमटी स्थानकादरम्यान अप आणि डाउन जलद मार्गावर तसेच वडाळा रोड ते सीएसएमटी स्थानकांदरम्यान अप-डाउन दोन्ही मार्गावर ब्लॉक असेल. यामुळे हावडा-सीएसएमटी सुपरफास्ट एक्स्प्रेस, मऊ-सीएसएमटी विशेष, मडगाव-सीएसएमटी जनशताब्दी एक्स्प्रेस, मडगाव-सीएसएमटी एक्स्प्रेस, अमृतसर-सीएसएमटी



एक्स्प्रेस, भुवनेश्वर-मुंबई कोणार्क एक्स्प्रेस, नागपूर-सीएसएमटी सुपरफास्ट स्पेशल, हावडा-सीएसएमटी मेल या गाड्या दादर स्थानकापर्यतच चालविण्यात येणार आहे, तर मुख्य मार्गावरील भायखळा ते सीएसएमटी स्थानकांदरम्यान आणि हार्बर मार्गावरील शेवटच्या सुटणाऱ्या लोकल सीएसएमटी -कसारा रात्री १२.१४ कल्याण-सीएसएमटी रात्री १०.३४ सीएसएमटी-पनवेल रात्री १२.१३ पनवेल-सीएसएमटी रात्री १०.४६

ब्लॉकनंतर सकाळी सुटणाऱ्या पहिल्या लोकल

सीएसएमटी-कर्जत पहाटे ४.४७ टाणे-सीएसएमटी पहाटे ४ सीएसएमटी-पनवेल पहाटे ४.५२ सीएसएमटी-बांद्रा पहाटे ४.१७

वडाळा रोड ते सीएसएमटी स्थानकांदरम्यानची लोकल सेवा बंद ठेवण्यात येणार आहे.

वानखेडे ब्रीजच्या गर्डरसाठी पश्चिम रेल्वेवर ब्लॉक

मुंबई: पश्चिम रेल्वे मार्गावरील चर्चगेट ते मरीन लाईन्स स्थानकादरम्यान वानखेडे अनेक फूट ओव्हर ब्रिजचे मुख्य गर्डर टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले अंशत : रद्द आहे. या कामासाठी ११ व १२ मे (शनिवार/रविवार) रोजी मध्यरात्री १.१० ते पहाटे ४.१० या वेळेत तीन तासांचा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामुळे काही उपनगरीय लोकलवर परिणाम होणार आहे.

गर्डरच्या कामासाठी ११ आणि १२ मे रोजी मुंबई उपनगरीय रेल्वे सेवांवर परिणाम होणार आहे. या कालावधीत काही लोकल अंशतः रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये १२ मे रोजीची बोरिवली-चर्चगेट लोकल बोरिवलीहून रात्री

१२. १० वाजता सुटेल. ही लोकल मुंबई सेंट्रल स्थानकापर्यंत चालविण्यात येणार आहे. तर ११ मे ची विरार-चर्चगेट लोकल विरारहून रात्री ११.४९ वाजता निघेल ही लोकल मुंबई सेंट्रल पर्यंत चालविण्यात येईल. १२ मे ची बोरीवली-चर्चगेट लोकल बोरिवलीहुन रात्री १२.३० वाजता निघेल आणि मुंबई सेंट्रल येथे रद्द होईल. चर्चगेट-बोरिवली १२ मे रोजीची चर्चगेट

पहाटेची ४.१८ वाजता सुटणारी लोकल मुंबई सेंट्रलवरून ४.२८ वाजता निघेल आणि चर्चगेट-मुंबई सेंट्रल दरम्यान अंशतः रद्द राहील. तर विरार-चर्चगेट लोकल ११ मे रोजी विरारहून रात्री ११.३० वाजता निघेल.

दहावीच्या परीक्षा शुल्कात वाढ

खासगीरित्या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना धक्का

मुंबई : राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावीच्या परीक्षा शुल्कात वाढ केली आहे. या निर्णयाने १७ नंबरचा अर्ज भरून खासगीरित्या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना धक्का दिला आहे. खासगीरित्या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जात ३० रूपयांनी, तर नावनोंदणी शुल्कात ११० रूपयांनी वाढ केली आहे. तर नियमित विद्यार्थ्यांचे परीक्षाशुल्क ४२० रूपयांवरून ४७० रूपये केले आहे.

राज्य शिक्षण मंडळाने जुलै-ऑगस्ट २०२४ आणि मार्च २०२५ मध्ये होणाऱ्या दहावी परीक्षेसाठी सुधारित शुल्काचे दर जाहीर केले



आहेत. या शुल्कवाढीबाबत सर्व शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना सूचना देण्यात याव्यात असे निर्देश मंडळाने विभागीय शिक्षण सचिवांना दिले आहेत. मंडळाने प्रशासकीय शुल्क, गुणपत्रिका, प्रमाणपत्र लॅमिनेशन,

आताचे दर नियमित परीक्षा शुल्क श्रेणीसुधार परीक्षा **680** 930 पुनर्परीक्षार्थी फॉर्म १७ परीक्षा अर्ज फॉर्म १७ नावनोंदणी

प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्कात वाढ केली नसली तरी नियमित, खासगी, पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात तसेच श्रेणीसुधार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात वाढ केली आहे.

महिला पोलीस उपनिरीक्षकाला लाचप्रकरणी अटक

त्यांच्याविरुद्ध आंबोली पोलीस राजश्री शिंत्रे यांच्याकडे होता. या

मुंबई : आंबोली पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या राजश्री प्रकाश शिंत्रे यांना बुधवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेतल्याप्रकरणी अटक केली. लाच म्हणून मोबाईल घेताना तिच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. यातील तक्रारदाराचा नेटवर्किंग इंटरनेटचा व्यवसाय काही महिन्यांपूर्वी

ठाण्यात एक गुन्हा दाखल गन्ह्यांत नंतर त्यांना पोलिसांनी अटक घेताना रगेहाथ होती. केली त्यांची अटकेनंतर लोकल कोर्टाने जामीनावर

सुटका केली होती. या गुन्ह्यांचा रोजी तपास महिला पोलीस उपनिरीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात

म्हणून मोबाईल देऊन तिने त्यांच्याकडे मोबाईल स्वरुपात लाचेची मागणी केली होती. ही लाच देण्याची इच्छा नसल्याने त्यांनी ३ मे

राजश्री शिंत्रेविरुद्ध

तक्रार केली होती. त्यात तिने लाच स्विकारण्याची तयारी दर्शविली होती. ठरल्याप्रमाणे तक्रारदार बधवारी सॅमसंग कंपनीचा डमी मोबाईल घेऊन आंबोली पोलीस ठाण्यात गेले होते. यावेळी मोबाईल घेताना राजश्री शिंत्रे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने

लोकसभा निवडणुक - २०२४

औरंगाबाद लोकसभेचे कार्यसम्राट, उच्चशिक्षित, शिक्षण महर्षि, समाजसवेक तसेच लोकप्रिय उमेदवार



यांनाच प्रचंड बहुमताने निवडून द्यावे ही नम्र विनंती

निवडणुक

Room Coole रूम कुलर

संपर्कः (मो.) ९९७५७४८१७७, ९८७००२८२३४

महायुतीची समारोपाची तोफ शिवाजी पार्कवर धडाडणार

महाविकास आघाडीची सभा १७ में रोजी बीकेसी मैदानात

मुंबई : दादर येथील शिवाजी पार्क मैदानावर १७ मे रोजी महायुतीच्या समारोपाची तोफ धडाडणार आहे. राज्य सरकारच्या नगरविकास व मुंबई महापालिकेने मनसेला सभेसाठी मंजुरी दिली आहे.

उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेनेही शिवाजी पार्क मैदानासाठी अर्ज केला होता. मात्र मनसेला परवानगी दिल्याने ठाकरेंच्या शिवसेनेने आता बीकेसीतील मैदानाची चाचपणी सुरू केली. दरम्यान, १८ में ला प्रचाराच्या तोफा थंडावणार आहेत. त्यात १७ मे रोजी होणाऱ्या महायुतीच्या या सभेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची उपस्थिती राहणार असल्याने मोदी व राज ठाकरे मविआवर कोणते टीकास्त्र सोडणार याकडे मंबईकरांसह राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. मुंबईत २० मे रोजी मतदान होणार आहे. यंदाच्या लोकसभा

निवडणुकीत दोन शिवसेना, दोन राष्ट्रवादी काँग्रेस रिंगणात आहेत. १८ मे प्रचाराच्या तोफा थंडावणार आहेत. त्यामुळे पुढील ८ दिवस राजकीय सभांचा धुरळा उडणार आहे. मुंबईत महायुतीचा प्रचाराला वेग आला असून, शिवाजी पार्क मैदानात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत सभा घेण्यासाठी पालिकेच्या जी उत्तर विभागाकडे मनसेने १८ मार्च रोजी रितसर अर्ज केला होता. त्याच दरम्यान ठाकरेंच्या शिवसेनेही १८ मेच्या सभेसाठी जी उत्तर विभागाकडे अर्ज केला होता. प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर मनसेला परवानगी देण्याबाबत ८ मे रोजी नगर विकास विभागाने पालिकेला कळवले. त्यानंतर ९ में गुरुवारी पालिकेच्या जी उत्तर विभागाने मनसेला सभेसाठी मंजुरी दिली आहे. तर महाविकास आघाडीची समारोप सभा १७ मे रोजी बीकेसी मैदानात होणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे विभाग प्रमुख महेश सावंत यांनी दिली आहे.

मुंबई : तंबाखू आणि गुटख्यावरील

उपाध्याय आणि न्याय मूर्ती आरिफ

डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने जनहित

याचिका दाखल करताना त्याचे

पावित्र्य राखा, त्याचा गैरवापर

करून नका. एखादा मुद्दा उपस्थित

करताना सखोल अभ्यास करा.

केवळ प्रसिध्दीसाठी जनहित

याचिकेचा वापर करू नका, अशा

शब्दांत कानउघाडणी करत याचिका

फेटाळण्याचे संकेत दिले, अखेर

याचिकाकर्त्यांने याचिकाच मागे

आणि गुटख्याची

घेतली.

जाहिरात

जाहिरातींविरोधात

दोघा मुकबधीर तरूणांचा मंत्रालयात आंदोलनाचा प्रयत्न

मुंबई : मंत्रालयात दोघा मुकबधीर तरूणांनी नोकरी मिळत नसल्याने वैफल्यग्रस्त होत संरक्षक जाळीवर उडी मारून आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र पोलीस सतर्क असल्याने जाळीवर उडी मारायच्या आधीच पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. त्यामुळे अनावस्था प्रसंग टळला.

सध्या राज्यात निवडणुकीचे वातावरण आहे. निवडणुक आचारसंहिताही लागू आहे. त्यामुळे मंत्रालयात त्या मानाने शुकशुकाट असतो. मंत्री देखील उपस्थित नसतात. मंत्रालयात गेल्या काही काळात अनेक आंदोलने मंत्रालयात उडया मारण्याचे प्रकारही घडले. त्यात एकाचा मृत्यूलाही झाला होता. त्यामुळे हे प्रकार टाळण्यासाठी आता मंत्रालयाच्या मधल्या भागात संरक्षक जाळी लावण्यात आली आहे.

गुरूवारी संध्याकाळी कशेळकर आणि कानडे या दोघा मुकबधीर तरूणांनी मंत्रालयातील या संरक्षक जाळीवर उडी मारण्याचा प्रयत्न केला; मात्र बंदोबस्तासाठी असणारे पोलीस सतर्क असल्याने त्यांनी या दोघांना उडी मारण्याआधीच ताब्यात घेतले. या दोघेही बेरोजगार आहेत. सन २०१७ सालापासून ते मंत्रालयात खेटे मारत आहेत. त्यांना मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना भेटायचे होते; मात्र दोघेही मंत्रालयात नसल्याने वैफल्यग्रस्त होऊन त्यांनी हा प्रकार करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र दोघेही मुकबधीर असल्याने पोलिसांनी देखील त्यांना सौजन्यपूर्ण वागणूक

OSBI

५० कोटींहून अधिक ग्राहकांचा अतूट विश्वास

हीच आमच्या उत्कृष्ट बँकिंगची ओळख








३१ मार्च, २०२४ रोजी समाप्त तिमाही आणि वर्षासाठी लेखापरीक्षित आर्थिक परिणाम रू. कोटींमध्य								
	केवळ भारतीय स्टेट बँक					स्टेट बँव	इ समूह	
तपशील	३१/०३/२०२४ रोजी समाप्त तिमाही	३१/०३/२०२३ रोजी समाप्त तिमाही	रोजी समाप्त वर्ष	३१/०३/२०२३ रोजी समाप्त वर्ष	३१/०३/२०२४ रोजी समाप्त तिमाही	३१/०३/२०२३ रोजी समाप्त तिमाही	३१/०३/२०२४ रोजी समाप्त वर्ष	३१/०३/२०२३ रोजी समाप्त वर्ष
0 00	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
एकूण परिचालन उत्पन्न (विशेष वस्तूंसह)	9२८४99.८८	१०६९१२.४६	४६६८१२.८२	३६८७ 9८.६६	9६४९9४.३६	9३६८५२.३९	५९४५७४.९०	803302.98
या कालावधीसाठी निव्वळ नफा / (तोटा) (कर-पूर्व, विशेष तथा/किंवा असाधारण वस्तू)	२७१३७.७७	२१३०५.४०	८८८८२.९६	६७२०५.६४	२८८५१.८६	२३४३५.५७	९८३४०.०४	७५३९८.५६
या कालावधीसाठी कर-पूर्व निव्वळ लाभ / (तोटा) (विशेष तथा/किंवा असाधारण वस्तूंच्या पश्चात)	२७१३७.७७	२१३०५.४०	८१७८२.९६	६७२०५.६४	२८८५१.८६	२३४३५.५७	९१२४०.०४	७५३९८.५६
या कालावधीसाठी कर-पश्चात निव्वळ लाभ / (तोटा) (विशेष तथा/किंवा असाधारण वस्तूंच्या पश्चात)	२०६९८.३५	१६६९४.५१	६१०७६.६२	५०२३२.४५	२१३८४.१५	१८०९३.८४	६७०८४.६७	५५६४८.१७
भरणा केलेले इक्विटी शेअर भांडवल	८९२.४६	८९२.४६	८९२.४६	८९२.४६	८९२.४६	८९२.४६	८९२.४६	८९२.४६
राखीव निधी (पुनर्मूल्यांकन राखीव निधी सोडून)	३ ४८७९८.४२	२९८९५९.७३	३४८७९८. ४२	२९८९५९.७३	३८६४९१.०६	३३०२८२.६०	३८६४९१.०६	३३०२८२.६०
प्रति शेअर कमाई (प्रत्येक ९ रूपयाचे दर्शनी मूल्य) (चालू आणि बंद परिचालनांसाठी) (₹) (तिमाही आकडे वार्षिकीकृत नाही)								
मूलभूत :	२३.१९	9८.७9	& ८.४४	५६.२९	२३.९६	२०.२७	७५.१७	६२.३५
डाइल्युटेड :	२३.१९	9८.७9	& ८.४४	५६.२९	२३.९६	२०.२७	७५.१७	६२.३५
कालावधीतील एकूण व्यापक कमाई कालावधीसाठी (कर-पश्चात) नफा/(तोटा) आणि इतर व्यापक कमाई (कर-पश्चात) सहित	संदर्भासाठी नोट नंबर २ बघा							
प्रतिभूति प्रीमियम खाते	७९११५.४८	७९११५.४८	७९११५.४८	७९११५.४८	७९११५.४८	७९११५.४८	७९११५.४८	७९११५.४८
निव्वळ मूल्य	३२४७१५.४८	२७६५६२.७९	३२४७१५.४८	२७६५६२.७९				
कर्ज इक्विटी गुणोत्तर	0.60	0.६६	0.60	0.६६				
थकबाकी विमोचन प्राधान्य शेअर्स	-	-	=	=				
भांडवल विमोचन राखीव निधी	_	_	_	_				
डिबेंचर विमोचन राखीव निधी	-	=	-	-				
थकीत कर्ज	५९७५६०.९१	४९३१३५.१५	५९७५६०.९१	४९३१३५.१५				

वरील विवरण सेबी (सूची आणि इतर प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, २०१५ च्या नियमन ३३ आणि नियमन ५२ अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजमध्ये दाखल केलेल्या तिमाही/वार्षिक आर्थिक निकालांच्या तपशीलवार स्वरूपाचा एक उतारा आहे. तिमाही/वार्षिक आर्थिक निकालांचे संपूर्ण स्वरूप स्टॉक एक्सचेंजचे संकेतस्थळ: www.bseindia.com, www.nseindia.com आणि बँकेचे संकेतस्थळ: bank.sbi वर उपलब्ध आहे.

एकूण सर्वसमावेशक उत्पन्न आणि इतर सर्वसमावेशक उत्पन्नाशी संबंधित माहिती उपलब्ध नाही कारण इंड-एएस अद्याप बँकेला लागू केलेले नाही.

ठिकाण : मुंबई

दिनांक: ०९.०५.२०२४





भारतीय स्टेट बँक, कॉर्पोरेट सेंटर, मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०० ०२१. आम्हाला फॉलो करा 🛭 🖸 🛇 🕅 📵 🧿

नोंदवण्याची मागणी करणारी याचिकाकर्त्यांना खडे बोल याचिकेची उच्च याचिकेत आरोप करण्यात आलेल्या कलाकारांचा काहीही संबंध नसताना त्यांना करणाऱ्या

जनहित याचिकेचे पावित्र्य राखा–हायकोर्ट

जनहित न्यायालयाने गंभीर दखल घेत याचिका यात नाहक गोवण्याचा प्रयत्न केला . याचिका याचिकाकर्त्यांलाच दाखल करताना कोणताही कायदेशीर 🎚 खडेबोल सुनावले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार

गुन्हा

आधार न घेता केवळ प्रसिध्दीसाठी याचिका केल्याचा ठपका ठेवत याचिकाकर्त्यांला चांगलेच धारेवर धरले. तसेच जनहित याचिका एक साधन म्हणून गैरवापर करू नका, याचिका करताना त्यात उपस्थित केलेल्या मुद्याचा योग्य अभ्यास करून युक्तीवाद करा, असे खडेबोल सुनावताना खंडपीटाने याचिका फेटाळण्याचे संकेत दिल्यानंतर याचिकाकर्त्याच्या संस्थेने याचिका मागे घेण्याची तयारी दर्शविली, ती खंडपीठाने मान्य केली.

तंबाखू आणि गुटख्यावरील जाहिरातींविरोधात याचिका

कलाकारांविरोधात कारवाईची मागणी करत यश फाऊंडेशनच्या वतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीच्या

न्यायालयाने याचिकेची गंभीर दखल घेत तंबाख्र आणि गुटख्याची जाहिरात करणाऱ्या कलाकारांना नोटीस बजावली होती; मात्र सुनावणी दरम्यान या कलाकारांनी याचिकेत नमृद केलेले एकही कृत्य केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.